



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 412 राँची, मंगलवार, 10 अप्रैल, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

.....

अधिसूचना

31 मार्च, 2018

संख्या:- 03नि/न०-05/2018 : 634 —राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या-302 दिनांक- 06 मार्च, 2018 द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 541(3) एवं धारा 541(4) तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 26 के तहत नगरपालिका आम एवं उप निर्वाचन, 2018 के निमित्त श्री प्रमोद कुमार सिंह, सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पाकुड़ को पाकुड़ नगर परिषद (वर्ग-ख) के वार्ड पार्षद पद (वार्ड सं०-10 से 13) के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) —सह- उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक 179 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा श्री शान्ति मंगल एक्का, प्रभारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पाकुड़ को पाकुड़ नगर परिषद (वर्ग-ख) के वार्ड पार्षद पद (वार्ड सं०-10 से 13) के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित पदाधिकारी को सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित करता है।

एतद् द्वारा उक्त अधिसूचना के क्रमांक 11 के कॉलम 6 को निम्न रूप से संशोधित कर पढ़ा जाय :-

क्र०सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	पद का नाम	पूर्व में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट सहायक निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट सहायक निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	पाकुड़	पाकुड़ नगर परिषद (वर्ग-ख)	वार्ड पार्षद (वार्ड सं०-10 से 13)	श्री प्रमोद कुमार सिंह, सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पाकुड़	श्री शान्ति मंगल एक्का, प्रभारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पाकुड़

2. अधिसूचना संख्या 302 दिनांक-06 मार्च, 2018 के शेष सभी अंश यथावत् रहेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।
